



|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |        |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|
| כָּל-                 | תְּבִנִית             | וְאֵת                 | הַמִּשְׁכָּן          | תְּבִנִית             | אֵת                   | אוֹתָךְ               | מֵרְאָה               | אֲנִי                 | אֲשֶׁר | כָּל                  | 9 |
| सब-                   | नमूना                 | और-को                 | निवास-का              | नमूना                 | को                    | तुम्हें               | दिखाता-हूँ            | मैं                   | जो     | सब-जैसा               |   |
| <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H8403</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H4908</a> | <a href="#">H8403</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H7200</a> | <a href="#">H0589</a> |        | <a href="#">H3605</a> |   |

וְכֵן תַּעֲשֶׂה: וְכֵן וְכֵן  
स बनाओ और-ऐसे  
उसके-सामान-का  
[H3627](#)

मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि पवित्र तम्बू कैसा दिखाई पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि इसमें सभी चीजें कैसी दिखाई देनी चाहिए। जैसा मैंने दिखाया है हर एक चीज़ ठीक वैसे ही बनाओ।

|                       |                       |         |                       |                       |           |                       |                       |                       |          |    |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|
| רָחִיבוּ              | וְחָצִי               | וְאֵמָה | אֶרְכוּ               | וְחָצִי               | אֲמָתַיִם | שְׁטִיִּים            | עֲצֵי                 | אֲרוֹן                | וְעֵשֶׂה | 10 |
| उसकी-चौड़ाई           | और-आधा                | और-हाथ  | उसकी-लंबाई            | और-आधा                | दो-हाथ    | कीकर-की               | लकड़ी-का              | संदूक                 | और-बनाओ  |    |
| <a href="#">H7341</a> | <a href="#">H2677</a> |         | <a href="#">H0753</a> | <a href="#">H2677</a> |           | <a href="#">H7848</a> | <a href="#">H6086</a> | <a href="#">H0727</a> |          |    |

קָמְתוּ: וְחָצִי וְאֵמָה  
उसकी-ऊँचाई और-आधा और-हाथ  
[H6967](#) [H2677](#)

“बबूल की लकड़ी का उपयोग करके एक विशेष सन्दूक बनाओ। वह सन्दूक निश्चय ही पैतालिस इंच लम्बा, सत्ताईस इंच चौड़ा और सत्ताईस इंच ऊँचा होना चाहिए।

|                       |                       |        |          |                       |                       |          |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| זָהָב                 | זָר                   | עָלָיו | וְעֵשֶׂת | תְּצַפְנֵנוּ          | וּמִחוּץ              | מִבַּיִת | טְהוֹר                | זָהָב                 | אֶתוֹ                 | וְצִפִּיתָ            | 11 |
| सोने-का               | किनारा                | उस-पर  | और-बनाओ  | मढ़ो-उसे              | और-बाहर-से            | अंदर-से  | शुद्ध                 | सोने                  | उसे                   | और-मढ़ो               |    |
| <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H2213</a> |        |          | <a href="#">H6823</a> | <a href="#">H2351</a> |          | <a href="#">H2889</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H6823</a> |    |

סְרָבִיב:  
चारों-ओर  
[H5439](#)

सन्दूक को भीतर और बाहर से ढकने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग करो। सन्दूक के कोनों को सोने से मढ़ो।

|                       |                       |                       |                       |     |                       |                       |                       |                       |          |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----|
| טְבַעַת               | וּשְׁתֵּי             | פַּעֲמֹתָיו           | אַרְבַּע              | עַל | וְנִתְּחָה            | זָהָב                 | טְבַעַת               | אַרְבַּע              | לֹא      | וַיִּצְקָה            | 12 |
| कड़े                  | और-दो                 | उसके-पैरों            | चार                   | पर  | और-लगाओ               | सोने-के               | कड़े                  | चार                   | उसके-लिए | और-ढालो               |    |
| <a href="#">H2885</a> | <a href="#">H8147</a> | <a href="#">H6471</a> | <a href="#">H0702</a> |     | <a href="#">H5414</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H2885</a> | <a href="#">H0702</a> |          | <a href="#">H3332</a> |    |

עַל- צִלְעוֹ הַשְּׂנִית:  
दूसरे पक्ष पर- कड़े और-दो एक पक्ष पर-  
[H8145](#) [H6763](#) [H2885](#) [H8147](#) [H0259](#) [H6763](#)

सन्दूक को उठाने के लिए सोने के चार कड़े बनाओ। सोने के कड़े को चारों कोनों पर लगाओ। दोनों तरफ दो—दो कड़े हों।

|          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |  |    |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|----|
| וְעֵשֶׂת | בְּרִי                | עֲצֵי                 | שְׁטִיִּים            | וְצִפִּיתָ            | אֹתָם                 | זָהָב:<br>सोने-से     |  |  |  | 13 |
| और-बनाओ  | डंडे                  | लकड़ी-के              | कीकर-की               | और-मढ़ो               | उन्हें                |                       |  |  |  |    |
|          | <a href="#">H0905</a> | <a href="#">H6086</a> | <a href="#">H7848</a> | <a href="#">H6823</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H2091</a> |  |  |  |    |

तब सन्दूक ले चलने के लिए बल्लियाँ बनाओ। ये बल्लियाँ बबूल की लकड़ी की बनी हो और सोने से मढ़ी होनी चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |     |                       |                       |                       |                       |                       |         |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----|
| וְהִבֵּאתָ            | אֶת-                  | הַבְּרִיִּים          | בְּטְבַעַת            | עַל | צִלְעֹת               | הָאֲרוֹן              | לְשֵׂאת               | אֶת-                  | הָאֲרוֹן              | בְּהֵם: | 14 |
| और-डालो               | को-                   | डंडे                  | कड़ों-में             | पर  | पक्षों                | संदूक-के              | उठाने-के-लिए          | को-                   | संदूक                 | उनसे    |    |
| <a href="#">H0935</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H0905</a> | <a href="#">H2885</a> |     | <a href="#">H6763</a> | <a href="#">H0727</a> | <a href="#">H5375</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H0727</a> |         |    |

सन्दूक के बगलों के कोनों पर लगे कड़ों में इन बल्लियों को डाल देना। इन बल्लियों का उपयोग सन्दूक को ले जाने के लिए करो।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |  |  |  |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|--|--|----|
| בְּטְבַעַת            | הָאֲרוֹן              | יְהִיוּ               | הַבְּרִיִּים          | לֹא                   | יִסְרוּ               | מִמֶּנּוּ: |  |  |  | 15 |
| कड़ों-में             | संदूक-के              | रहें                  | डंडे                  | न                     | निकालें               | उससे       |  |  |  |    |
| <a href="#">H2885</a> | <a href="#">H0727</a> | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H0905</a> | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H5493</a> |            |  |  |  |    |

ये बल्लियाँ सन्दूक के कड़ों में सदा पड़ी रहनी चाहिए। बल्लियों को बाहर न निकालो।”

וַנִּתֵּן אֶל-הַאֲרוֹן אֶת-הָעֵדוּת אֲשֶׁר אִתָּן אֵלֵינוּ: 16  
 और-रखी मैं-संदूक की साक्षी जो तुम्हें  
[H0413](#) [H5414](#) [H5715](#) [H0853](#) [H0727](#) [H0413](#) [H5414](#)

परमेश्वर ने कहा, “मैं तुम्हें साक्षीपत्र दूँगा। इस साक्षीपत्र को इस सन्दूक में रखो।

וְעָשִׂיתָ כַּפֹּת זָהָב וְטְהוֹר אֲמֹתַיִם וְחֹצֵי וְחֹצֵי וְאֵמָה וְחֹצֵי 17  
 और-बनाओ प्रायश्चित्त-ढक्कन सोने-का शुद्ध दो-हाथ और-आधा और-आधा और-हाथ  
[H2677](#) [H0753](#) [H2677](#) [H2889](#) [H2091](#) [H3727](#)

וְרָחֲבָהּ: 17  
 उसकी-चौड़ाई  
[H7341](#)

तब एक ढक्कन बनाओ। इसे शुद्ध सोने का बनाओ। इसे पैंतालिस इंच लम्बा और सत्ताईस इंच चौड़ा बनाओ।

וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרָבִים זָהָב מְקֻשָּׁהּ וְהָב מְקֻשָּׁהּ אֹתָם מִשְׁנֵי קַצּוֹת הַכַּפֹּת: 18  
 और-बनाओ दो करूब सोने-के गढ़े-हुए बनाओ उन्हें दोनों-से सिरों प्रायश्चित्त-ढक्कन-के  
[H3727](#) [H7098](#) [H8147](#) [H0853](#) [H4749](#) [H2091](#) [H3742](#) [H8147](#)

तब दो करूब बनाओ और उन्हें ढक्कन के दोनों सिरों पर लगाओ। इन करूबों को बनाने के लिए स्वर्ण पत्रों का उपयोग करो।

וְעָשִׂיתָ כְּרוֹב אֶחָד מִקַּצָּהּ וְכָרוֹב-אֶחָד מִזָּה מִזָּה מִן-הַכַּפֹּת 19  
 और-बनाओ एक करूब एक करूब से-सिरे-से एक और-करूब-इस-ओर इस-ओर से-सिरे-से प्रायश्चित्त-ढक्कन से-  
[H3727](#) [H2088](#) [H7098](#) [H0259](#) [H3742](#) [H2088](#) [H7098](#) [H0259](#) [H3742](#)

וְעָשִׂיתָ אֶת-הַכְּרָבִים עַל-שְׁנֵי קַצּוֹתָיו: 19  
 को-बनाओ करूबों पर-दोनों सिरे-सिरों  
[H3742](#) [H0853](#) [H7098](#) [H8147](#)

एक करूब को ढक्कन के एक सिरे पर लगाओ तथा दूसरे को दूसरे सिरे पर। करूब और ढक्कन को परस्पर जोड़ कर के एक इकाई के रूप में बनाया जाए।

וְהָיוּ הַכְּרָבִים פְּרָשִׁי כְּנָפַיִם לְמַעַלָּה וְכָרוֹב-אֶחָד מִקַּצָּהּ עַל-הַכַּפֹּת 20  
 और-हों करूब पंख-फैलाने-वाले पंख कर्बों पर-अपने-पंखों-से ढकने-वाले एक प्रायश्चित्त-ढक्कन प्रायश्चित्त-ढक्कन पर-  
[H3727](#) [H3671](#) [H4605](#) [H3671](#) [H6566](#) [H3742](#) [H1961](#)

וּפְנֵיהֶם אִישׁ אֶל-אָחִיו אֶל-הַכְּרָבִים וְהָיוּ פִּי הַכַּפֹּת אֶל-אָחִיו אֶל-הַכְּרָבִים: 20  
 और-उनके-मुख को-करीबों के मुखों से प्रायश्चित्त-ढक्कन की-ओर-दूसरे की-ओर-एक और-उनके-मुख प्रायश्चित्त-ढक्कन के  
[H3742](#) [H6440](#) [H1961](#) [H3727](#) [H0413](#) [H0251](#) [H0413](#) [H0376](#) [H6440](#)

करूब एक दूसरे के आमने-सामने होने चाहिए। करूबों के मुख ढक्कन की ओर देखते हुए होने चाहिए। करूबों के पंख ढक्कन पर फैले हों।

וַנִּתֵּן אֶת-הַכַּפֹּת עַל-הָאֲרוֹן מִלְּמַעְלָה וְאֶל-הָאֲרוֹן תִּתֵּן אֶת-הָעֵדוּת 21  
 और-रखी मैं-संदूक को-संदूक पर-प्रायश्चित्त-ढक्कन को-साक्षी  
[H5715](#) [H0853](#) [H5414](#) [H0727](#) [H0413](#) [H4605](#) [H0727](#) [H3727](#) [H0853](#) [H5414](#)

אֲשֶׁר אִתָּן אֵלֵינוּ: 21  
 जो तुम्हें दूँगा  
[H0413](#) [H5414](#)

“मैंने तुमको साक्षीपत्र का जो प्रमाण दिया है उसे साक्षीपत्र के सन्दूक में रखो और विशेष ढक्कन से सन्दूक को बन्द करो।

וְנוֹעַדְתִּי לָךְ שָׁם וְדַבַּרְתִּי אִתָּךְ מֵעַל אֹתָךְ וְדַבַּרְתִּי אִתָּךְ וְנוֹעַדְתִּי לָךְ 22  
 और-मिलूँगा तुमसे वहाँ और-बोलूँगा तुमसे और-मिलूँगा तुमसे  
[H3742](#) [H8147](#) [H0996](#) [H3727](#) [H0854](#) [H1696](#) [H8033](#) [H3259](#)

עַל-אֲרוֹן הָעֵדוּת אֶת-כָּל-אֲשֶׁר אָצְנָה אִתָּךְ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: 22  
 पर-संदूक के-साक्षी-के को-सब-जो आज़ा-दूँगा के-लिए-तुम्हें के-बेटों इस्राएल-के  
[H3478](#) [H0413](#) [H0853](#) [H6680](#) [H3605](#) [H0853](#) [H5715](#) [H0727](#)

जब मैं तुमसे मिलूँगा तब मैं करूबों के बीच से, जो साक्षीपत्र के सन्दूक के विशेष ढक्कन पर है, बात करूँगा। मैं अपने सभी आदेश इस्राएल के लोगों को उसी स्थान से दूँगा।”

|            |                       |                       |                       |           |                       |          |                       |          |                       |    |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----|
| וְעָשִׂיתָ | שֶׁלֶחַן              | עֲצֵי                 | שָׁטִים               | אֲמֹתָיִם | אָרְבּוֹ              | וְאֹמָהּ | רְחִבּוֹ              | וְאֹמָהּ | וְחָצִי               | 23 |
| और-बनाओ    | मेज़                  | लकड़ी-की              | कीकर-की               | दो-हाथ    | उसकी-लंबाई            | और-हाथ   | उसकी-चौड़ाई           | और-हाथ   | और-आधा                |    |
|            | <a href="#">H7979</a> | <a href="#">H6086</a> | <a href="#">H7848</a> |           | <a href="#">H0753</a> |          | <a href="#">H7341</a> |          | <a href="#">H2677</a> |    |

קַמָּחוֹ:  
उसकी-ऊँचाई  
[H6967](#)

“बबूल की लकड़ी का एक मेज़ बनाओ। मेज़ छत्तीस इंच लम्बा अट्टारह इंच चौड़ा और सत्ताईस इंच ऊँचा होना चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |            |          |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| וְצִפִּיתָ            | אֹתוֹ                 | זָהָב                 | טְהוֹר                | וְעָשִׂיתָ | לָוִי    | זָר                   | זָהָב                 | סָבִיב                | 24 |
| और-मढ़ो               | उसे                   | सोने                  | शुद्ध                 | और-बनाओ    | उसके-लिए | किनारा                | सोने-का               | चारों-ओर              |    |
| <a href="#">H6823</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H2889</a> |            |          | <a href="#">H2213</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H5439</a> |    |

मेज़ को शुद्ध सोने से मढ़ो और उसके चारों ओर सोने की झालर लगाओ।

|            |          |                       |                       |                       |            |                       |                       |                       |    |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| וְעָשִׂיתָ | לָוִי    | מִסְנֶרֶת             | טַפַּח                | סָבִיב                | וְעָשִׂיתָ | זָר                   | זָהָב                 | לְמִסְנֶרֶתוֹ         | 25 |
| और-बनाओ    | उसके-लिए | चौखटा                 | हथेली-चौड़ा           | चारों-ओर              | और-बनाओ    | किनारा-               | सोने-का               | उसके-चौखटे-के-लिए     |    |
|            |          | <a href="#">H4526</a> | <a href="#">H2948</a> | <a href="#">H5439</a> |            | <a href="#">H2213</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H4526</a> |    |

סָבִיב:  
चारों-ओर  
[H5439](#)

तब तीन इंच चौड़ा सोने का चौखरा मेज़ के ऊपर चारों ओर जड़ दो और उसके चारों ओर सोने की झालर लगाओ।

|            |          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| וְעָשִׂיתָ | לָוִי    | אַרְבַּע              | טַבַּעַת              | זָהָב                 | וְנָתַתָּ             | אֵת                   | הַטַּבַּעֲתִים        | עַל                   | הַפְּאֵת              | 26 |
| और-बनाओ    | उसके-लिए | चार                   | कड़े                  | सोने-के               | और-लगाओ               | को-                   | कड़े                  | पर                    | कोनों                 |    |
|            |          | <a href="#">H0702</a> | <a href="#">H2885</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H5414</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H2885</a> | <a href="#">H0702</a> | <a href="#">H6285</a> |    |

אַשָּׁר  
जो  
לְאַרְבַּע  
चारों-के-लिए  
רַגְלָיו:  
पैरों  
[H7272](#) [H0702](#)

तब सोने के चार कड़े बनाओ और मेज़ के चारों कोनों पर पायों के पास लगाओ।

|                       |                       |                       |                       |              |                       |                       |                       |                       |             |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
| לְעַמֻּת              | הַמִּסְנֶרֶת          | תְּהִינּוּ            | הַטַּבַּעֲתִים        | לְבָתָיִם    | לְבָתָיִם             | לְבָתָיִם             | לְשֵׁאת               | אֵת                   | הַשֶּׁלְחָן | 27 |
| सामने-की-ओर           | चौखटे-के              | हों                   | कड़े                  | खानों-के-लिए | डंडों-के-लिए          | उठाने-के-लिए          | को-                   | को-                   | मेज़        |    |
| <a href="#">H5980</a> | <a href="#">H4526</a> | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H2885</a> |              | <a href="#">H0905</a> | <a href="#">H5375</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H7979</a> |             |    |

हर एक पाए पर एक कड़ा लगा दो। जो मेज़ के ऊपर की चारों ओर की सजावट के समीप हो। इन कड़ों में मेज़ को ले जाने के लिए बनी बल्लियाँ फँसी होंगी।

|            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |     |    |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----|
| וְעָשִׂיתָ | אֵת                   | הַבַּדִּים            | עֲצֵי                 | שָׁטִים               | וְצִפִּיתָ            | אֹתָם                 | זָהָב                 | וְנִשְׂאָ             | בָּם                  | אֵת | 28 |
| और-बनाओ    | को-                   | डंडे                  | लकड़ी-के              | कीकर-की               | और-मढ़ो               | उन्हें                | सोने-से               | और-उठाई-जाएगी-        | उनसे                  | को- |    |
|            | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H0905</a> | <a href="#">H6086</a> | <a href="#">H7848</a> | <a href="#">H6823</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H5375</a> | <a href="#">H0853</a> |     |    |

הַשֶּׁלְחָן:  
मेज़  
[H7979](#)

बल्लियाँ को बनाने के लिए बबूल की लकड़ी का उपयोग करो और उन्हें सोने से मढ़ो। बल्लियाँ मेज़ को ले जाने के लिए हैं।

|            |                       |                       |                       |                       |        |          |                       |                       |    |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|----|
| וְעָשִׂיתָ | קַעֲרוֹתָיו           | וְכַפֹּתָיו           | וְקִשּׁוֹתָיו         | וּמְנַקְיָתָיו        | אֲשֶׁר | יִסְּ    | בָהֶן                 | זָהָב                 | 29 |
| और-बनाओ    | उसकी-थालियाँ          | और-उसके-कटोरे         | और-उसके-जग            | और-उसके-चिलमची        | जिनसे  | उडेलेंगे | उनसे                  | सोना                  |    |
|            | <a href="#">H7086</a> | <a href="#">H3709</a> | <a href="#">H7184</a> | <a href="#">H4518</a> |        |          | <a href="#">H2004</a> | <a href="#">H2091</a> |    |

טְהוֹר  
शुद्ध  
תְּעֹשָׂה  
बनाओ  
אֹתָם:  
उन्हें  
[H0853](#) [H2889](#)

पात्र, तवे, मर्तबान और अर्ध के लिए कटोरे इन सबको शुद्ध सोने का बनाना।

|   |                       |                       |                       |                       |                       |     |                       |    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|----|
| פ | תמיד :                | לפני                  | פנים                  | לחם                   | השלחן                 | על- | ונתת                  | 30 |
| प | सदा                   | मेरे-साम्हने          | भेंट-की               | रोटी                  | मेज़                  | पर- | और-रखी                |    |
|   | <a href="#">H8548</a> | <a href="#">H6440</a> | <a href="#">H6440</a> | <a href="#">H3899</a> | <a href="#">H7979</a> |     | <a href="#">H5414</a> |    |

विशेष रोटी मेज़ पर मेरे सम्मुख रखो। यह सदैव मेरे सम्मुख वहाँ रहनी चाहिए।”

|                       |                       |                       |                       |          |                       |                       |                       |                       |         |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----|
| וביעיה                | וקנה                  | ירכה                  | המנורה                | העשה     | מקשה                  | טהור                  | זהב                   | מנרת                  | ועשית   | 31 |
| उसके-प्याले           | और-उसका-डंडा          | उसका-आधार             | दीवट                  | बनाई-जाए | गढ़ी-हुई              | शुद्ध                 | सोने-की               | दीवट                  | और-बनाओ |    |
| <a href="#">H1375</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H3409</a> | <a href="#">H4501</a> |          | <a href="#">H4749</a> | <a href="#">H2889</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H4501</a> |         |    |

|                       |      |                       |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| יהיו :                | ממנה | ופרחיה                | כפתריה                |
| हों                   | उससे | और-उसके-फूल           | उसकी-गाँठें           |
| <a href="#">H1961</a> |      | <a href="#">H6525</a> | <a href="#">H3730</a> |

“तब तुम्हें एक दीपाधार बनाना चाहिए। दीपाधार के हर एक भाग को बनाने के लिए शुद्ध सोने के पत्तर तैयार करो। सुन्दर दिखने के लिए दीप पर फूल बनाओ। ये फूल, इनकी कलियाँ और पंखुडियाँ शुद्ध सोने की बनी होनी चाहिए और वे सभी चीजें एक ही में जुड़ी हुई होनी चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| האחד                  | מצדה                  | מנרה                  | קני                   | ושלשה                 | מצריה                 | יצאים                 | קנים                  | וששה                  | 32 |
| एक                    | उसकी-एक-ओर-से         | दीवट-के               | डंडे                  | तीन                   | उसके-दोनों-ओर-से      | निकलते-हों            | डंडे                  | और-छह                 |    |
| <a href="#">H0259</a> | <a href="#">H6654</a> | <a href="#">H4501</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H7969</a> | <a href="#">H6654</a> | <a href="#">H3318</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8337</a> |    |

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| השני :                | מצדה                  | מנרה                  | קני                   | ושלשה                 |
| दूसरे                 | उसकी-दूसरी-ओर-से      | दीवट-के               | डंडे                  | और-तीन                |
| <a href="#">H8145</a> | <a href="#">H6654</a> | <a href="#">H4501</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H7969</a> |

“दीपाधार की छः शाखाएँ होनी चाहिए। तीन शाखाएँ एक ओर और तीन शाखाएँ दूसरी ओर होनी चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| משקדים                | גבעים                 | ושלשה                 | ופרח                  | כפתר                  | האחד                  | בקנה                  | משקדים                | גבעים                 | שלשה                  | 33 |
| बादाम-आकार-के         | प्याले                | और-तीन                | और-फूल                | गाँठ                  | एक                    | डंडे-पर               | बादाम-आकार-के         | प्याले                | तीन                   |    |
| <a href="#">H8246</a> | <a href="#">H1375</a> | <a href="#">H7969</a> | <a href="#">H6525</a> | <a href="#">H3730</a> | <a href="#">H0259</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8246</a> | <a href="#">H1375</a> | <a href="#">H7969</a> |    |

|                       |     |                       |                       |                       |     |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| המנרה :               | מן  | היצאים                | הקנים                 | לששת                  | בן  | ופרח                  | כפתר                  | האחד                  | בקנה                  |
| दीवट                  | से- | निकलने-वाले           | डंडों                 | छहों-के-लिए           | ऐसे | और-फूल                | गाँठ                  | एक                    | डंडे-पर               |
| <a href="#">H4501</a> |     | <a href="#">H3318</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8337</a> |     | <a href="#">H6525</a> | <a href="#">H3730</a> | <a href="#">H0259</a> | <a href="#">H7070</a> |

हर शाखा पर बादाम के आकार के तीन प्याले होने चाहिए। हर प्याले के साथ एक कली और एक फूल होना चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ופרחיה :              | כפתריה                | משקדים                | גבעים                 | ארבעה                 | ובמנרה                |
| और-उसके-फूल           | उसकी-गाँठें           | बादाम-आकार-के         | प्याले                | चार                   | और-दीवट-पर            |
| <a href="#">H6525</a> | <a href="#">H3730</a> | <a href="#">H8246</a> | <a href="#">H1375</a> | <a href="#">H0702</a> | <a href="#">H4501</a> |

और स्वयं दीपाधार पर बादाम के फूल के आकार के चार और प्याले होने चाहिए। इन प्यालों के साथ भी कली और फूल होने चाहिए।

|                       |                       |      |                       |                       |                       |                       |      |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| תחת                   | וכפתר                 | ממנה | הקנים                 | שני                   | תחת                   | וכפתר                 | ממנה | הקנים                 | שני                   | תחת                   | וכפתר                 | 35 |
| नीचे-                 | और-गाँठ               | उससे | डंडों-के              | दो                    | नीचे                  | और-गाँठ               | उससे | डंडों-के              | दो                    | नीचे                  | और-गाँठ               |    |
| <a href="#">H8478</a> | <a href="#">H3730</a> |      | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8147</a> | <a href="#">H8478</a> | <a href="#">H3730</a> |      | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8147</a> | <a href="#">H8478</a> | <a href="#">H3730</a> |    |

|                       |     |                       |                       |                       |      |                       |                       |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| המנרה :               | מן  | היצאים                | הקנים                 | לששת                  | ממנה | הקנים                 | שני                   |
| दीवट                  | से- | निकलने-वाले           | डंडों                 | छहों-के-लिए           | उससे | डंडों-के              | दो                    |
| <a href="#">H4501</a> |     | <a href="#">H3318</a> | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8337</a> |      | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H8147</a> |

दीपाधार से निकलने वाली छः शाखाएँ दो दो के तीन भागों में बटीं होनी चाहिए। हर एक दो शाखाओं के जोड़े के नीचे एक एक कली बनाओ जो दीपाधार से निकलती हो।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| טהור :                | זהב                   | אחת                   | מקשה                  | כלה                   | יהיו                  | ממנה | וקנתם                 | כפתריהם               |
| शुद्ध                 | सोना                  | एक                    | गढ़ी-हुई              | पूरी                  | हों                   | उससे | और-उनके-डंडे          | उनकी-गाँठें           |
| <a href="#">H2889</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H0259</a> | <a href="#">H4749</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H1961</a> |      | <a href="#">H7070</a> | <a href="#">H3730</a> |

ये सभी शाखाएँ और कलियाँ दीपाधार के साथ एक इकाई बननी चाहिए। और हर एक चीज शुद्ध सोने से तैयार की जानी चाहिए।

|                       |        |                       |             |                       |                       |                       |             |                       |            |    |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----|
| עֵבֶר                 | עַל-   | וְהֵאִיר              | נִרְתְּיָהּ | אֶת-                  | וְהֵעֵלָהּ            | שִׁבְעָה              | נִרְתְּיָהּ | אֶת-                  | וְעָשִׂיתָ | 37 |
| सामने                 | की-और- | और-प्रकाशित-करें      | उसके-दीपकों | को-                   | और-जलाओ               | सात                   | उसके-दीपक   | को-                   | और-बनाओ    |    |
| <a href="#">H5676</a> |        | <a href="#">H0215</a> |             | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H5927</a> | <a href="#">H7651</a> |             | <a href="#">H0853</a> |            |    |

פְּנִיָּהּ :  
उसके  
[H6440](#)

तब सात छोटे दीपक दीपाधार पर रखे जाने के लिए बनाओ। ये दीपक दीपाधार के सामने के स्थान को प्रकाश देंगे।

|                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| טָהוֹר :              | זָהָב                 | וּמִקְרָתֶיהָ         | וּמִלְקָחֶיהָ         | 38 |
| शुद्ध                 | सोना                  | और-उसकी-गुलदानी       | और-उसके-चिमटे         |    |
| <a href="#">H2889</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H4289</a> | <a href="#">H4457</a> |    |

दीपक की बतियाँ बुझाने के पात्र और तश्तरियाँ शुद्ध सोने की बनानी चाहिए।

|                       |                       |                       |                       |                       |           |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| הָאֵלֹהִים :          | הַכֵּלִים             | כָּל-                 | אֵת                   | אֹתָהּ                | יַעֲשֶׂה  | טָהוֹר                | זָהָב                 | כִּכָּר               | 39 |
| इन                    | इन-सामान              | सब-                   | को                    | उसे                   | बनाया-जाए | शुद्ध                 | सोने-का               | किक्कार               |    |
| <a href="#">H0428</a> | <a href="#">H3627</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H0854</a> | <a href="#">H0853</a> |           | <a href="#">H2889</a> | <a href="#">H2091</a> | <a href="#">H3603</a> |    |

पचहत्तर पौंड शुद्ध सोने का उपयोग दीपाधार और इसके साथ की सभी चीज़ों को बनाने में करें।

|   |                       |                       |        |         |                       |           |                       |    |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|----|
| ס | בְּהָר :              | מֵרְאָה               | אֹתָהּ | אֲשֶׁר- | בְּתַבְנִיחָם         | וְעָשִׂהָ | וּרְאָה               | 40 |
| स | पहाड़-पर              | दिखाया-गया-हो         | तुम    | जो-     | उनके-नमूने-के-अनुसार  | और-बनाओ   | और-देखो               |    |
|   | <a href="#">H2022</a> | <a href="#">H7200</a> |        |         | <a href="#">H8403</a> |           | <a href="#">H7200</a> |    |

सावधानी के साथ हर एक चीज़ ठीक—ठीक उसी ढँग से बनायी जाए जैसी मैंने पर्वत पर तुम्हें दिखाई है।”